



मीडिया अपडेट – साइबर सेल साउथ

साइबर सेल ने लोको के लौटाये 16,84,026 रुपये

कानपुर: अलग-अलग ढंग से लोको के बैंक खातों को खाली करने वाले साइबर अपराधियों से चार कदम आगे चलकर पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर की टीम ने उन शातिर अपराधियों से ढगी गई पूरी रकम वापस करा दी। साइबर सेल जोन दक्षिण द्वारा सराहनीय कार्य करते हुये साइबर ठगी के शिकार हुये लोको के बैंक अकाउंट से कटे हुये पैसे को वापस पीडित को दिलाया गया जिनका विवरण निम्नवत है –

1.मु0अ0सं0 579/2022 धारा 66 डी आईडी एक्ट थाना गोविन्दनगर वादिनी सुषमा नारंग निवासी गोविन्दनगर का कुल 99,000/- रुपया वापस कराया गया। वादिनी मुकदमा 579/2022 थाना गोविन्दनगर सुषमा नारंग को सन्देश के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उसके खाते से 99,999/- रुपये कट गये हैं जिसके बाद वादिनी ने 1930 पर आनलाइन रिपोर्ट कर शिकायत दर्ज करायी थी जिसके बाद साइबर सेल जोन दक्षिण की त्वरित कार्यवाही से वादिनी का उक्त पूरा पैसा वापस कराया गया है।

2.मु0अ0सं0 771/2022 धारा 406/420/506 भादवि थाना बर्वा वादी लक्ष्मण प्रसाद निवासी बर्वा का कुल 15,00,000/- रुपया वापस कराया गया। वादी मुकदमा 771/2022 थाना बर्वा लक्ष्मण प्रसाद से शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करवाने के बहाने कुल 24,00,000/- रुपया आनलाइन फ्राड द्वारा ठगी कर ली गयी थी जिसमे से कुल 15,00,000/- रुपये साइबर सेल व वादी की तत्परता से वापस कराया गया।

3.कम्पलेन नं0 23111220083551 शिकायतकर्ता अभिषेक श्रीवास्तव दबौली कानपुर नगर का कुल 41,019/- रुपया वापस कराया गया। शिकायतकर्ता अभिषेक श्रीवास्तव के फ्लिपकार्ट वॉलेट से बिना आवेदक की जानकारी के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आईफोन खरीदा गया जिससे उसके अकाउंट से कुल 41,019/- रुपये कट गये थे साइबर सेल जोन दक्षिण की त्वरित कार्यवाही से आवेदक का उक्त पूरा पैसा वापस कराया गया।

4.मु0अ0सं0 238/2022 धारा 66 डी आईटी एक्ट थाना किदवईनगर वादी सुमित रिछारिया पुत्र स्व0 श्री रामलाल रिछारिया नि0 127/1169 डब्लू ब्लॉक साकेत नगर दक्षिण कानपुर नगर थाना किदवईनगर का कुल 43,008/-हजार रुपया वापस कराया गया। आवेदक के अकाउंट से बिना कोई काल या मैसेज के 43,008/- हजार रुपया कट गया था साइबर सेल जोन दक्षिण की त्वरित कार्यवाही से आवेदक का उक्त पूरा पैसा वापस कराया गया।

रुपये वापस कराने वाली साइबर टीम में- उ0नि0 सनित मलिक (साइबर प्रभारी), हे0का0 शमशाद अली (साइबर सेल), हे0का0 दीपक शामिल रहे।